

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 11—अप्रैल 17, 2015 (चैत्र 21, 1937)

No. 15]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 11—APRIL 17, 2015 (CHAITRA 21, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

अन्तरिक्ष विभाग

बंगलूर—560 231, दिनांक 23 मार्च 2015

सं. 3/1(1)/2014—I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में श्रीमती पी. सुधा, लेखा अधिकारी को व. लेखा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 08.06.2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

बी. अनिल कुमार, उप सचिव

सं. 3/1(1)/2015—I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में श्री जयकुमार के., अग्निशमन अधिकारी—डी को अग्निशमन अधिकारी—ई के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

बी. अनिल कुमार, उप सचिव

सं. 3/1(1)/2015—I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :—

क्र. सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु.	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1	पी. मारिया जोसफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच
2	डॉ. एस. पकिरीसामी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच
3	सी.सी. जोसफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच
4	अतुला देवी एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
5	लेविन जी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
6	के.एस. नारायणन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
7	सुधीर जी. वर्गिस	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
8	प्रेम दास एम.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
9	डॉ. ए.जी. राजेन्द्रन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
10	अनिल कुमार के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
11	बी. जयकुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
12	डॉ. अनिल भारद्वाज	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
13	जे. जयप्रकाश	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
14	उमा महेस्वरन आर.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
15	उष्णिक्कृष्णन नायर एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
16	डी. मोहन कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
17	एस. चन्द्रमौली	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी
18	दीपक जॉन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी
19	मोहन कुमार एल.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी
20	पी. सुब्रमनियण	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी
21	शिवसुब्रमणी एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी
22	श्रीलाल एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी
23	अनीता एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी
24	ए.के. भास्करण	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी
25	प्रमोद कुमार पाण्डेय	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी
26	एन. राधा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी
27	बालाकृष्णन एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी
28	आर. सुरेश कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी

क्र. सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु.	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
29	सेबास्टियन जॉर्ज के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी
30	प्रियंकार बंधोपाध्याय	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी
31	शेर्ली जॉय	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी
32	एन. जयलाल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी
33	एच. सलीम	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी
34	के.आर. नारायणन कुट्टी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी
35	विनोद के.जी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
36	प्रिया हरिदासन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
37	जे. चन्द्रमौली	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
38	एम. विष्णु नंपूतिरी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
39	पद्मकुमार के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
40	लवली सुसन वर्गिस	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
41	डॉ. शंभु नंबूदिरी के.वी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
42	आर. मनोज	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
43	पी. मधु कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
44	आर. गुणासेकरन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
45	सुरेश पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
46	बी.एस. सुरेश कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
47	बिजु सी. थॉमस	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
48	अलगरसामी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
49	रश्मि अलप्पत	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
50	जेम्स पी. थॉमस	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
51	नवीन जी. पाई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
52	एस. हरिकृष्णा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
53	श्रीरेखा यू.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
54	एम. रवि कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
55	आर. रवि	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
56	आर. मोतीलाल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
57	गिरीश पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
58	सेलिन थामस	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ

क्र. सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु.	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
59	अनिल अब्राहम सैमुअल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
60	रेंजिस मैथ्यू	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
61	राजेश जार्ज पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
62	रवि राज एन.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
63	कुमारगुरु एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
64	गोकुलदास के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
65	के. जयन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
66	एस. बालसुब्रमणी अय्यर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
67	राजेश पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
68	ऐश्वर्या समृद्ध	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
69	आनंद पी.एम.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
70	सुभाष वल्सलम वी.जी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
71	जे. मोहन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
72	अशोक के.के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
73	महेश पाई पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
74	एलिजाबेथ थॉमस	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
75	प्रतिभा के.एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
76	रतिदेवी सतीसकुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
77	आर. कृष्णकुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
78	राजेश सी.के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
79	कलाधरन वी.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
80	प्रवीण मुनेश्वर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
81	ऑसेफ एम.आई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
82	ईडेन इवान्स सैमुअल के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
83	रंजीत पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
84	अब्राहम जोस	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
85	जी. सुदर्शन राव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
86	स्मिता जोस	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
87	प्रियंक गुप्ता	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
88	मनोज कुमार अग्रवाल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई

क्र. सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु.	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
89	रेनिश पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
90	डॉ. डेसिकन एस.एल.एन.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
91	के.पी.सुभाजयन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
92	जी. कृष्णन आसरी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
93	दीपा देवपाल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
94	चन्द्रन एम.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
95	बिनोज आर.वी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
96	जयप्रकाशन सी.पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
97	तुषार कांति दास	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
98	श्रीराम बनर्जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
99	रोनी सी. वर्गिस	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
100	दीपक पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
101	डॉ. विपिन कुमार यादव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
102	डॉ. सुनील कुमार एस.वी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
103	शाजहाँ एम.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
104	एम. पोन्मालर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
105	एच. स्वेतालक्ष्मी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
106	निखिल मल्होत्रा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
107	राजेश सिंह राजपूत	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
108	लीना के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
109	निर्भय कुमार उपाध्याय	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
110	डैनिश के. डैनियल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
111	मो. परवेज आलम	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
112	समीर सौरभ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
113	रिषि कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
114	जैद अहमद	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
115	अनुपम रामचन्द्रन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
116	अनूप वी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
117	नचिकेता अविनाश	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
118	दिनेश कोया नेलामुरु	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी

क्र. सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु.	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
119	अभीक भट्टाचार्या	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
120	हरि के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
121	अनिल कुमार तिवारी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
122	मो. मोइनुद्दीन हसन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
123	एस. नागप्रिया	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
124	सिनु सेन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
125	मनु शर्मा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
126	मयुख आचार्य	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
127	देशमुख शैलेश संजयराव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
128	ए. श्रीकुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
129	प्रसांत कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
130	अशरफ अली ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
131	अरूण जकारिया	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
132	अनिल जॉर्ज	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
133	धनेश एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
134	आर. शिवकुमारन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
135	इ. कृष्णा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
136	के. हारून रशीद	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
137	भद्रशील	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
138	टेनीसन जे.ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
139	ठाकुर सुदेश कुमार रौनिजा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
140	सुरेश कुमार पी.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
141	रम्या बालाकृष्णन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
142	अभिलाष के.एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
143	दीपू कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
144	अनीश के. थम्पी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
145	अनवर के. बाकर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
146	जिता पी. थामस	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
147	आदर्श वी.आर.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
148	निशा एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी

क्र. सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु.	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
149	अस्वती आर. कृष्णन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
150	सुन्नीकुट्टी अब्राहम	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
151	श्रुति वी.जे.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
152	रतन लाल लावावंशी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
153	जयचन्द्र दास डी.एल.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
154	ऐन. मैथ्यू	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
155	सतीश कुरुविला अलेक्जेंडर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
156	अभिनव रूहेला	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
157	पीयूषकांति कर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
158	बी. राधिका	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
159	सरत आर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
160	हरिहरन के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
161	साजू एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
162	बिश्व रंजन मोहंती	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
163	शितिज अरोड़ा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
164	सुशील बर्छा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
165	अनिल पी. मडेक्कल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
166	अरूण जोस के.ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
167	जयचन्द्रन नायर के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
168	जिनु कृष्णन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
169	के. नरेश कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
170	संतोश मुरलीधरन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
171	उष्णि रवीन्द्रन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
172	बिमल बी.एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
173	पवन कुमार मंगल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
174	पौलोस सी.के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
175	के.आई. जेम्स	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
176	एस. ससीधरन नायर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
177	विजयकुमार के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
178	एन. गोपीनाथन नायर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी

क्र. सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु.	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
179	अभिलाष	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
180	एन. जयपालन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
181	बाबूराजन एन.पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
182	एंटनी सी.ओ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
183	अजीत कुमार यू.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
184	राजीवन के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
185	सुशांत कुमार एम.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
186	नोयेल फिलिप वलियकलाईल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
187	रमेशन के.के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
188	आर. विजयकुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
189	फिलिप के. मैथ्यू	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
190	जॉर्ज वाई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
191	गिरच इमरान असातर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
192	गोगुलपति सुप्रिया	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
193	ई. श्रीधर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
194	उष्णिक्कृष्णन जे.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
195	डोमिनिक जॉर्ज जोसेफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
196	संदीप कुमार इपुरी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
197	संदीप दास	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
198	प्रेमचंद एम.पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
199	के.एन. रामराजन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
200	रोहित कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
201	अंकुर जैन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी
202	प्रशांत पी.	व. तकनीकी सहायक-ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी
203	मनोज बाबू	व. तकनीकी सहायक-ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी
204	प्रमोद पी.पी.	व. तकनीकी सहायक-ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी
205	बाबू इलिम्बन	व. तकनीकी सहायक-ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी
206	प्रिया पी.	व. तकनीकी सहायक-ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी
207	संतोष कुमार जी.	व. तकनीकी सहायक-ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी
208	प्रभात कुमार के.टी.	व. तकनीकी सहायक-ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी

क्र. सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु.	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
209	साजन एस.	व. तकनीकी सहायक-ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी
210	जिशा वी.सी.	व. तकनीकी सहायक-ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी
211	उष्णिक्कृष्णन के.	व. तकनीकी सहायक-ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी
212	निजेश आर.	व. तकनीकी सहायक-ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी
213	श्रीधरन ए.	व. तकनीकी सहायक-ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी
214	राजेश कुमार एन.	व. तकनीकी सहायक-ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी
215	नजर ए. बाकर	व. तकनीकी सहायक-ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी
216	बी. सैथिल कुमार	व. तकनीकी सहायक-ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी
217	राजीवन पी.	व. तकनीकी सहायक-ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी
218	ए.जी. संतोष कुमार	व. तकनीकी सहायक-ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी
219	शैलजा एल.	व. तकनीकी सहायक-ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी
220	नहुशन वाई.	व. तकनीकी सहायक-ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी
221	रमेश जी.	व. तकनीकी सहायक-ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी
222	श्रीजित एस.	व. तकनीकी सहायक-ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी
223	प्रकाश चन्द्रन पी.आर.	व. तकनीकी सहायक-ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी
224	प्रेमकृष्णन एम.के.	व. तकनीकी सहायक-ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी
225	रे डी.टी.	व. तकनीकी सहायक-ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी

बी. अनिल कुमार, उप सचिव

सं. 3/1(1)/2015-I : राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम में निम्नलिखित क्रय एवं भंडार अधिकारी को व. क्रय एवं भंडार अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांक के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :

क्रम सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु	पदोन्नति की तिथि
1.	प्रेम कुमार एम.आर.	08/06/2012
2.	सुरेश मोहन एन.	01/01/2013
3.	श्रीमती टी.	01/01/2013
4.	ललिता के.	01/01/2013
5.	दिनेश एन. सुतारिया	09/05/2012

बी. अनिल कुमार, उप सचिव

सं. 3/1(1)/2015-I : राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी. के रूप में दिनांक 01.07.2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

क्रम सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु
1.	स्वाति किरणमयी एम.
2.	बासिल इल्डोस

बी. अनिल कुमार, उप सचिव

सं. 3/1(1)/2015-I : राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम में श्रीमती पी. बीना, व. लेखा अधिकारी को प्रधान लेखा एवं आ.वि.स. के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 12.07.2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

बी. अनिल कुमार, उप सचिव

सं. 3/1(1)/2015-I : राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम में निम्नलिखित प्रशासन अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दिए गए पद पर उनके सामने दिए गए दिनांक के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

क्रम सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु	पदनाम	पदोन्नति की तिथि
1.	एम. प्रसन्नन	व. प्रशासन अधिकारी	07.05.2012
2.	रॉय सैमुअल	प्रशासन अधिकारी	21.05.2012

बी. अनिल कुमार, उप सचिव

सं. 3/1(1)/2015-I : राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांक के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :

क्रम सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु	नियुक्ति की तिथि
1.	अभिषेक देवांगन	11/03/2013
2.	सजिता टी.एस.	05/12/2012
3.	चंदना पवन कुमार	16/10/2012
4.	शशांक पचौरी	18/05/2012
5.	अपर्णा विष्णु नंपूतिरी	23/05/2012

क्रम सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु	नियुक्ति की तिथि
6.	बुर्ले वेंकट सत्य श्रवण	28/09/2012
7.	साई कृपा एम.	27/09/2012
8.	एल्बिन जॉर्ज	27/09/2012
9.	गुसैन राजेशसिंह नंदन	27/09/2012
10.	नितीश कुमार	27/09/2012
11.	अर्जुन दास	27/09/2012
12.	आदित्य मुल्लापुडी	28/09/2012
13.	वैभव माथुर	28/09/2012
14.	गरिमा गर्सा	28/09/2012
15.	इवान जोसफ रॉय	28/09/2012
16.	आदिमूलम वेंकट सूर्य तेज	27/09/2012
17.	देवेन्द्र सिंह	28/09/2012
18.	वड्डवल्ली दिलीप कुमार	28/09/2012
19.	नितिन राय	28/09/2012
20.	अतिन अग्रवाल	27/09/2012
21.	आदित्य वर्मा एस.	27/09/2012
22.	अमित कुमार उपाध्याय	28/09/2012
23.	विवेक कुमार	28/09/2012
24.	सुरभि बघोटिया	27/09/2012

बी. अनिल कुमार, उप सचिव

सं. 3/1(2)2015-I: अंतरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम में निम्नलिखित वरिष्ठ प्रधान कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन ने अपने अधिवर्षिता आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गई तारीख के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है।

क्रम सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु.	अधिवर्षिता की तिथि
1.	सी.एच. बसवराजु	31/08/2012
2.	ए.जी. सरस्वती अम्मा	30/09/2012

बी. अनिल कुमार, उप सचिव

सं. 3/1(2)2015-I: अंतरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों ने अपने अधिवर्षिता आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गई तारीख के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है।

क्रम सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु.	पदनाम	अधिवर्षिता की तिथि
1.	जे. गीता	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	31/08/2012
2.	एम.सी. विश्वंभरन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	31/08/2012
3.	मोहनन एम.के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	31/08/2012
4.	कृष्णनकुट्टी नायर एन.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	31/07/2012

बी. अनिल कुमार, उप सचिव

सं.3/1(2)2015-I: राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों का सेवा से त्यागपत्र प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

क्रम सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु.	पदनाम	त्यागपत्र की तिथि
1.	कुलकर्णी आदित्य दिनकर राव	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एससी	10/07/2012
2.	गोविन्द कृष्णन आर.	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एससी	31/07/2013
3.	ललित कुमार	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसडी	01/08/2012
4.	निखिल मदन	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एससी	31/08/2012

बी. अनिल कुमार, उप सचिव

सं. 3/1(2)2015-I: राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एससी का सेवा से त्यागपत्र प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

क्रम सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु.	त्यागपत्र की तिथि
1.	मणि भूषण शर्मा	05/03/2012
2.	सुधीर कुमार बी.	28/02/2012
3.	दीपक कुमार झा	07/06/2013
4.	शमिल एम.	24/05/2013
5.	दीपा एस. नायर	08/02/2013
6.	संचित	20/07/2012

बी. अनिल कुमार, उप सचिव

सं. 3/1(2)2015-I: श्री जोसफ वर्गीस ई.वी. ने अपनी अधिवर्षिता आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप अंतरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम में प्रशासन अधिकारी का कार्यभार दिनांक 30.04.2012 के अपराह्न से छोड़ दिया है।

बी. अनिल कुमार, उप सचिव

सं. 3/1(2)2015-I—श्रीमती राजम्मा एम.आई. ने अपनी अधिवर्षिता आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप अंतरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र, तिरुवनंतपुरम में क्रय एवं भंडार अधिकारी का कार्यभार दिनांक 31.05.2012 के अपराह्न से छोड़ दिया है।

बी. अनिल कुमार, उप सचिव

सं. 3/1(2)2015-I—अंतरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र, तिरुवनंतपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियरों ने अपनी अधिवर्षिता आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गई तारीख के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है।

क्रम सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु.	पदनाम	अधिवर्षिता की तिथि
1.	टी. जे. थॉमस	वैज्ञानिक/इंजीनियर—जी	31.05.2012
2.	के. श्रीकंठन	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एसएफ	30.09.2012
3.	गिरिजन एम.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एसई	30.06.2012
4.	के. सी. अरुणन	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एसई	30.09.2012
5.	कृष्णन आशारी	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एसई	31.10.2012
6.	मोहनदास सी. बी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एसई	31.10.2012
7.	बी. तंकप्पन	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एसई	31.10.2012
8.	के. जयन	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एसई	28.02.2013
9.	आर. रामचंद्रन	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एसडी	28.02.2013
10.	एस. पी. सांबामूर्ति	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एसडी	31.03.2012
11.	बालन वी. के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एसडी	31.10.2012

बी. अनिल कुमार, उप सचिव

सं. 3/1(2)2015-I—राष्ट्रपति अंतरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई केन्द्र, तिरुवनंतपुरम में वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.एफ., श्री टोमी जॉन की दिनांक 09.07.2012 को हुई मृत्यु पर खेद प्रकट करते हैं।

बी. अनिल कुमार, उप सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 मार्च 2015

अधिसूचना

सं. 181/2/2014—सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा, भारत निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 04 मार्च, 2015 से वेतन बैंड पी. बी.-3, रु. 15600—39,100/- तदनुसार ग्रेड वेतन रु. 6,600/- में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं :—

- (1) श्री आशिम नारायण दास
- (2) श्री जोसुला कामेश्वर राव
- (3) श्री के. दिलीप कुमार वर्मा
- (4) श्री शिव बहादुर जोशी

- (5) श्री प्रमोद कुमार शर्मा
- (6) श्री दारसुओथांग (अ.ज.जा.)
- (7) श्री मलय मल्लिक
- (8) श्री अविनाश कुमार
- (9) श्री अरविन्द आनन्द (अ.जा.)
- (10) श्री राहुल शर्मा
- (11) श्री अजय कुमार
- (12) श्री मोहम्मद उमर
- (13) श्री टी.सी.कॉम (अ.ज.जा.)
- (14) सुश्री पुष्पा निरोज़ लाकड़ा (अ.ज.जा.)
- (15) श्री एन. टी. भूटिया (अ.ज.जा.)
- (16) श्री बी. सी. पात्रा

स्टैंडहोप युहलुंग, प्रधान सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसम्बर 2014

शुद्धिपत्र

सं. 14013/06/2013-अ.भा.से.-III— कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा 25 नवम्बर, 2014 को जारी अधिसूचना सं. 14013/06/2013-अ.भा.से.-III में आंशिक संशोधन करते हुए श्री वी. एन. सूर्यवंशी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के बैच को 2004 के स्थान पर 2006 पढ़ा जाए।

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2015

सं. 13017/37/2013-अ.भा.से.-(I)— भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उत्तर प्रदेश और गृह मंत्रालय की समिति से केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री अभिषेक सिंह, आईएएस (यूपी : 11) को दिशानिर्देशों में छूट प्रदान करते हुए जीवनसाथी के आधार पर 3 वर्ष की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश संवर्ग से एजीएमयूटी संवर्ग (दिल्ली अनुभाग) में प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करती है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

दिनांक 4 मार्च 2015

सं. 13017/49/2014-अ.भा.से.-(I)— भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और असम सरकार, मेघालय सरकार और हरियाणा सरकार की सहमति से केन्द्र सरकार, एतद्वारा श्री अजय सिंह तोमर (एएम : 12) को उनके श्रीमती संगीता तेतरवाल, आईएएस (एचवाई : 13) से विवाह करने के आधार पर असम-मेघालय संवर्ग से हरियाणा संवर्ग में स्थानांतरण करते हैं।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 2015

सं. ए-12011/5/2012-प्रशा.II—राष्ट्रपति, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.02.2015 के आदेश सं. 5/03/2015-सीएस.I (यू) के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अनुभाग अधिकारी श्री जयदीप कुमार चौधरी को 20.02.2015 से पूर्णतः तदर्थ आधार पर 31.05.2015 की

अवधि तक के लिए अथवा नियमित आधार पर पदों के भरे जाने अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में सीएसएस के ग्रेड I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण के उपर्युक्त संदर्भित आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी।

अभय कुमार शरण, अवर सचिव

दिनांक 9 मार्च 2015

सं. ए-19011/03/2013-प्रशा. II—राष्ट्रपति, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.02.2015 के आदेश सं. 4/2/2015-सीएस. I (डी) के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अवर सचिव, श्री कृपा नाथ मिश्र को रु. 7,600/- ग्रेड वेतन सहित (रु. 15,600—39,100/-) वेतन बैंड-3 में तदर्थ आधार पर 02 मार्च, 2015 के पूर्वाह्न से 30.06.2015 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, चयन ग्रेड (उप सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

अभय कुमार शरण, अवर सचिव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2015

सं. ए-19011/485/1994-स्था. I—औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में नियमित सहायक विकास अधिकारी श्री नन्द लाल, जो स्थानापन्न विकास अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 जनवरी, 2015 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च 2015

सं. 1(7)/2014-विस्फो.—राष्ट्रपति श्री पी. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन में पे बैंड-4, 37,400—67,000/- + ग्रेड पे 10,000/- रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर दिनांक 02.03.2015 (पूर्वाह्न) से मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के पद पर नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार, अवर सचिव

वाणिज्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 2015

सं. ए-32014/4/2015-संवर्ग—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 फरवरी, 2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/3/2015 सी.एस.—I(यू) के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री गौरी शंकर झा को 23 फरवरी, 2015 से पूर्ति प्रभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के नाते पी.बी.—III में रु. 15,600—39,100/- + 6,600/- (ग्रे पे) में नियुक्त करते हैं।

2. श्री गौरी शंकर झा की तदर्थ प्रोन्नति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित निबंधन व शर्तों के अधीन होगी।

अजय कुमार, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 2015

सं. पी-45011/2/2013-सीसी—श्री अभय बाकरे, आईआरएसईई-88, कार्यकारी निदेशक, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए), की प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होने पर उन्हें दिनांक 29 मार्च, 2015 अपराह्न से पीसीआरए से कार्यमुक्त किया जाता है।

2. श्री बाकरे को उनके कार्यमुक्त होने की तारीख से क्रम में दिनांक 30 मार्च, 2015 से 28 मई, 2015 तक 60 दिनों का अर्जित अवकाश प्रदान किया गया है। उपर्युक्त अवकाश अवधि पूरी होने पर उनकी सेवाएं उनके मूल संवर्ग अर्थात् रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) को सौंपी जाती हैं।

जे. के. सिंह, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2015

सं. ए-19011/05/2015-मा.सं. II—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.01.2015 के आदेश सं. 4/2/2015-सीएस—I (घ) के अनुपालन में श्री विक्रान्त सचदेवा, अवर सचिव को प्रवर कोटि (उप सचिव) में उनकी पदोन्नति होने और तत्पश्चात् रक्षा मंत्रालय से स्थानांतरण होने के परिणामस्वरूप,

01.02.2015 (पूर्वाह्न) से 30.06.2015 या अगले आदेश होने तक जो भी पहले हो, पे बैंड-3 (15,600—39,100/- रु.) के साथ ग्रेड पे-7,600/- रु. में उर्वरक विभाग की नामावली में उप सचिव के रूप में शामिल किया जाता है।

संजय श्रीवास्तव, अवर सचिव

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 मार्च 2015

सं. ए-19011/224/2015-प्रशासन-—राष्ट्रपति, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति के दिनांक 23 फरवरी, 2015 के आदेश संख्या 33/4/2015-ईओ (एस एम.1) (10) के अनुसरण में श्री मधुकर गुप्ता, भारतीय प्रशासनिक सेवा (राजस्थान: 1985) को लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय में दिनांक 13 मार्च, 2015 पूर्वाह्न से संयुक्त सचिव के रूप में 5 वर्ष की अवधि या अगले आदेश, जो भी पहले हो तक नियुक्त करते हैं।

कल्पना नारायण, निदेशक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 2015

सं. ए-12025/73/2013-सीएचएस-III—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. रीता को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में वीएमएमसी एवं सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में प्रसूति रोग विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर दिनांक 01 फरवरी, 2014 के पूर्वाह्न से तथा आगामी आदेशों तक परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

मुरारी लाल शर्मा, अवर सचिव

पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 26 मार्च 2015

सं. ए-11013/1/2014-स्था. I—राष्ट्रपति महोदय ने श्री रघुवीर सिंह, निजी सचिव को दिनांक 19 जनवरी, 2015 से पे बैंड (पीबी-3) 15,600—39,100/- + 6,600/- रु. (ग्रेड पे) में को टर्मिनस आधार पर माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा पेयजल एवं स्वच्छता के कार्यालय में बतौर अतिरिक्त निजी सचिव नियुक्त किया है।

एन. पी. टोप्पो, अवर सचिव

सं. ए-11013/1/2014-स्था. (खंड-II)— राष्ट्रपति महोदय ने श्री भुवनेश कुलश्रेष्ठ, आईआरएस (आईटी : 1994), अतिरिक्त आयुक्त, आयकर, आईटीएटी, अहमदाबाद को दिनांक 18 फरवरी, 2015 से पे बैंड (पीबी-4) 37,400—67,000/+ 8,700/- रु. (ग्रेड पे) में 5 वर्षों की अवधि हेतु को-टर्मिनस आधार पर माननीय राज्य मंत्री (पीआर) के कार्यालय में बतौर निजी सचिव नियुक्त किया है।

एन. पी. टोप्पो, अवर सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च 2015

सं. ईआरबी-1/2015/2/4—राष्ट्रपति जी, श्री हेमन्त कुमार, आईआरएसएमई, महाप्रबंधक, पश्चिम रेलवे, को 13.01.2015 के अपराह्न से सदस्य यांत्रिक, रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-1/2015/2/12—राष्ट्रपति जी, श्री एस. एस. नारायणन, एचएजी/आईआरएसई, सलाहकार (सिविल इंजीनियरिंग), रेलवे बोर्ड की ग्रेड रुपये 75,500—80,000/- में पदोन्नति होने पर उन्हें 19.03.2015 के पूर्वाह्न से अपर सदस्य (सिविल इंजीनियरिंग), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-1/2015/2/13—राष्ट्रपति जी, श्री लाज कुमार, एचएजी/आईआरएसई, सलाहकार (निर्माण), रेलवे बोर्ड की ग्रेड रुपये 75,500—80,000/- में पदोन्नति होने पर उन्हें 19.03.2015 के पूर्वाह्न से अपर सदस्य (निर्माण), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 मार्च 2015

सं. ए-38012/7/2014-स्था.—पोत परिवहन मंत्रालय के श्री एस. एस. शर्मा, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव अधिवर्षिता की आयु में पहुंचने के कारण शासकीय सेवा से दिनांक 28.02.2015 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

धीरेन्द्र कुमार पूर्वे, अवर सचिव

दिनांक 18 मार्च 2015

सं. ए-19011/3/2015-स्था.—राष्ट्रपति, श्री अनंत यशवंत सावंत को माननीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग एवं नौवहन मंत्री (श्री नितिन गडकरी) के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में वेतनमान पीबी-3 के पे बैंड रु. 15,600—39,100/— + रु. 6,600/— (ग्रेड पे) में दिनांक 01.01.2015 (पूर्वाह्न) से सहायसानी आधार पर अथवा अगले आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

धीरेन्द्र कुमार पूर्वे, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 मार्च 2015

सं. ए-12024/3/2014-ई-I—मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के सचिवालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 6/43/2014-ईओ(एसएम.1) दिनांक 26.12.2014 के अनुसरण में, राष्ट्रपति, श्री आनंद कुमार, आईएस (केएल : 84) को दिनांक 26.12.2014 (पूर्वाह्न) से 67,000—79,000/— रु. के एचएजी वेतनमान में, अपर सचिव के रैंक और वेतन में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास कंपनी लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) में प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

देवराज शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-12025/1/2013-ई-I—कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के आदेश संख्या 4/3/2014 सीएस. I (डी) दिनांक 22.12.2014 के अनुसरण में, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के नियमित अवर सचिव, श्री अखतरुल हनीफ (सीएसएल सं. 5403) ग्रेड पे बैंड-3, 15,600—39,100/— रु. + 7,600/— रु. के ग्रेड पे में 24.12.2014 (पूर्वाह्न) से प्रारंभ में 30.06.2015 तक की अवधि तक अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में उप सचिव (चयन ग्रेड) के पद पर नियुक्त करते हैं :—

2. उनकी उपरोक्त तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :—

- (i) उनकी यह तदर्थ नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में लंबित रिट पेटिशन सं. 4097/2011 (अरुण गौर बनाम गरिमा सिंह तथा अन्य), डब्ल्यू पी. सं. 4616/2011 (वी. एस. पांडे तथा अन्य बनाम गरिमा सिंह तथा अन्य), डब्ल्यू पी. सं. 7619/2011 (यूपीएससी बनाम गरिमा सिंह तथा अन्य), डब्ल्यू पी. सं. 2176/2012 (संघ राज्य बनाम गरिमा सिंह तथा अन्य), एवं अन्य संबंधित रिट पेटिशन सं. डब्ल्यू पी. सं. 2523/2012 (संघ राज्य बनाम अनंत किशोर सरन), डब्ल्यू पी. (सी) सं. 2524/2012 (संघ राज्य बनाम शेरशा एवं अन्य), डब्ल्यू पी. सं. 2525/2012 (संघ राज्य बनाम सईद ईशम रिजवी तथा अन्य), डब्ल्यू पी. (सी), डब्ल्यू पी. (सी) 2526/2012 (संघ राज्य बनाम संदीप कुमार गुप्ता), डब्ल्यू पी. (सी) सं. 2527/2012 (संघ राज्य बनाम सौम्या चट्टोपाध्याय तथा अन्य) दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अन्य तथा उपरोक्त से संबंधित के अतिरिक्त सक्षम न्यायालय मामलों के अधीन होगा।
- (ii) सीएसएस के चयन ग्रेड (उप सचिव) के ग्रेड में तदर्थ पदोन्नति, उन्हें ग्रेड में नियमित पदोन्नति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी।
- (iii) ग्रेड में तदर्थ आधार पर प्रदान की गई सेवा चयन ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं मानी जाएगी।
- (iv) तदर्थ पदोन्नति उनको ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी और बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।

देवराज शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 3 फरवरी 2015

सं. ए-12023/6/2014-ई-I—राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय) के का. ज्ञा. सं. 1/6/2014-ईओ (एमएम-I) दिनांक 23.12.2014 के अनुसरण में, श्री सेंथिल पांडियन सी., भारतीय प्रशासनिक सेवा (यूपी : 2002) को (वेतन बैंड-3, 15,600—39,100/— रुपये + 7,600/— रुपये के ग्रेड वेतन में) दिनांक 05.01.2015 (पूर्वाह्न) से दिनांक 26.04.2018 तक (अर्थात् एकल कार्यावधि में संवर्ग से बाहर अधिकतम 7 वर्ष की अवधि का उद्घाटन) अथवा जब तक वे मंत्रीजी के निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद कर देंगे अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तब

तक के लिए को-टर्मिनस आधार पर उप सचिव के स्तर पर माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत परिवहन राज्य मंत्री (श्री पोन्. राधाकृष्णन) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी. आर. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 24 फरवरी 2015

सं. ए-12025/1/2013-स्थापना-I—राष्ट्रपति, कार्मिक, लोक शिकायत एवम् पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.11.2014 के आदेश सं. 5.11.2014-सी.एस.1 (यू) क अनुपालन में शहरी विकास मंत्रालय में सीएसएस (सीएसएल सं. 8693) के नियमित अनुभाग अधिकारी की दिनकर बालीजी कुंभारे को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में वेतन बैंड-3 में, रुपये 15,600—39,100/- + रुपये 6,600/- के ग्रेड वेतन में 11.12.2014 (पूर्वाह्न) से 31.5.2015 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पद भरे जाने तक अथवा अगले आदेश जारी करने तक, इसमें से जो भी पहले हो, पूर्णतः तदर्थ आधार पर अवर सचिव (सीएसएस के ग्रेड-I) के पद पर नियुक्ति करते हैं।

2. अवर सचिव के पद पर उनकी तदर्थ आधार पर उनकी नियुक्ति निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अद्वयधीन है :—

- (i) तदर्थ प्रदोन्नति से इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची समावेशन के लिए अथवा सीएसएस के ग्रेड-I में वरीयता का दावा करने के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति को बिना कारण बताये किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
- (iii) अवर सचिव ग्रेड के वरीयता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिनी जाएगी।
- (iv) यदि उन्होंने सीएसएस के यथा व्यादेशित संवर्ग प्रशिक्षण योजना में अनिवार्य लेवल 'डी' प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, तो उन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा किये गये नामांकन के अनुसार पूर्वोक्त प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

डी. आर. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 5 मार्च 2015

सं. ए-12023/6/2014-ई-I—राष्ट्रपति, श्री एस. साईराम, युवा सहायक ग्रेड-I, एनएसएस क्षेत्रीय केन्द्र, चेन्नै, युवा मामले और खेल मंत्रालय को वेतन बैंड-2, 9,300—34,800/- रुपए + 4,800/- रुपए के ग्रेड वेतन में दिनांक 10.11.2014 (पूर्वाह्न) से अथवा आगामी आदेशों तक अथवा जब तक मंत्री जी उनकी सेवाएं चाहें अथवा जब तक मंत्री जी त्याग-पत्र दे दें, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक के लिए को-टर्मिनस/प्रतिनियुक्ति आधार पर माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत परिवहन राज्य मंत्री (श्री पोन्. राधाकृष्णन) के प्रथम निजी सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी. आर. शर्मा, अवर सचिव

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560231, the 23rd March 2015

No. 3/1(1)/2014-I—The President is pleased to appoint on promotion the Smt. P. Sudha, Accounts Officer as Sr. Accounts Officer in Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 08.06.2012 and until further orders.

B. ANIL KUMAR, Deputy Secretary

No. 3/1(1)/2015-I —The President is pleased to appoint on promotion Sri Jaya Kumar K., Fire Officer-D as Fire Officer-E in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2012 and until further orders.

B. ANIL KUMAR, Deputy Secretary

No. 3/1(1)/2015-I —The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2012 and until further orders :—

Sl. No	Name Shri/Smt/Kum	Post from which promoted	Post to which promoted
1	P. Maria Joseph	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
2	Dr. S. Packirisamy	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
3	C.C. Joseph	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
4	Athula Devi S.	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
5	G. Levin	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
6	K.S. Narayanan	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
7	Sudhir G. Verghis	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
8	Prem Das M.	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
9	Dr. A.G. Rajendran	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
10	Anil Kumar K.	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
11	B. Jayakumar	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
12	Dr. Anil Bhardwaj	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
13	J. Jayaprakash	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
14	Uma Maheswaran R.	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
15	Unnikrishnan Nair S.	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
16	D. Mohan Kumar	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
17	S. Chandramouli	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
18	Deepak John	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
19	Mohan Kumar L.	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
20	P. Subramanian	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
21	Sivasubramony S.	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
22	Sreelal S.	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
23	Anitha S.	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
24	A.K. Bhaskaran	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG

Sl. No	Name Shri/Smt/Kum	Post from which promoted	Post to which promoted
25	Pramod Kumar Pandey	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
26	N. Radha	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
27	Balakrishnan S.	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
28	R. Suresh Kumar	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
29	Sebastian George K.	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
30	Priyanka Bandyopadhyay	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
31	Sherly Joy	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
32	N. Jayalal	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
33	H. Saleem	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
34	K.R. Narayanankutty	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
35	Vinod K.G.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
36	Priya Haridasan	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
37	J. Chandramouli	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
38	M. Vishnu Nampoothiri	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
39	Padmakumar K.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
40	Lovely Susan Varghese	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
41	Dr. Sambhu Namboodiri K.V	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
42	R. Manoj	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
43	P. Madhu Kumar	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
44	R. Gunasekaran	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
45	Suresh P.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
46	B.S. Suresh Kumar	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
47	Biju C. Thomas	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
48	A. Alagarsamy	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
49	Rashmi Alappat	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
50	James P. Thomas	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
51	Naveen G. Pai	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
52	S.Harikrishna	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
53	Sreerekha U.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
54	M. Ravi Kumar	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
55	R. Ravi	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
56	R. Mothilal	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
57	Girish P.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
58	Celine Thomas	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
59	Anil Abraham Samuel	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
60	Renjis Mathew	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF

Sl. No	Name Shri/Smt/Kum	Post from which promoted	Post to which promoted
61	Rajesh George P.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
62	Ravi Raj N.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
63	Kumaraguru S.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
64	Gokuldas K.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
65	K. Jayan	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
66	S. Balasubramani Iyer	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
67	Rajesh P.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
68	Aiswarya Samridh	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
69	Anand P.M.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
70	Subhash Valsalam V.G.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
71	J. Mohan	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
72	Ashok K.K.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
73	Mahesh Pai P.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
74	Elizabeth Thomas	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
75	Prathibha K.S.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
76	Rathidevi Satiskumar	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
77	R. Krishna Kumar	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
78	Rakesh C.K.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
79	Kaladharan V.F.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
80	Pravin Muneshwar	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
81	Ouseph M.I.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
82	Eden Evans Samuel K.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
83	Renjith P.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
84	Abraham Jose	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
85	G. Sudarshan Rao	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
86	Smitha Jose	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
87	Priyank Gupta	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
88	Manoj Kumar Agrawal	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
89	Renish P.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
90	Dr. Desikan S.L.N.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
91	K.P. Subhajayan	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
92	G. Krishnan Asari	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
93	Deepa Devapal	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
94	Chandran M.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
95	Binoj R.V.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
96	Jayaprakashan C.P.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE

Sl. No	Name Shri/Smt/Kum	Post from which promoted	Post to which promoted
97	Tushar Kanti Das	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
98	Sreeram Banerjee	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
99	Rony C. Varghese	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
100	Deepak P.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
101	Dr. Vipin Kumar Yadav	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
102	Dr. Sunil Kumar S.V.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
103	Shajahan M.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
104	M. Ponmalar	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
105	H. Swethalakshmi	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
106	Nikhil Malhotra	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
107	Rajesh Singh Rajput	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
108	Leena K.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
109	Nirbhay Kumar Upadhyay	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
110	Danish K. Daniel	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
111	Md. Perwaiz Alam	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
112	Sameer Saurabh	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
113	Rishi Kumar	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
114	Zaid Ahmad	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
115	Anupam Ramachandran	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
116	Anoop V.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
117	Nachiketa Avinash	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
118	Dinesh Koya Nelamuru	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
119	Abhik Bhattacharya	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
120	Hari K.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
121	Anil Kumar Tiwari	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
122	Md. Moinuddin Hassan	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
123	S. Nagapriya	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
124	Sinu Sen	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
125	Manu Sharma	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
126	Mayukh Acharya	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
127	Deshmukh Shailesh Sanjay Rao	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
128	A. Sreekumar	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
129	Prasanth Kumar	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
130	Ashraf Ali A.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
131	Arun Zachariah	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
132	Anil George	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD

Sl. No	Name Shri/Smt/Kum	Post from which promoted	Post to which promoted
133	Dhanesh S.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
134	R. Sivakumaran	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
135	E. Krishna	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
136	K. Haroon Rasheed	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
137	Bhadrasheel	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
138	Tennyson J.A.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
139	Thakur Sudesh Kumar Raunija	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
140	Suresh Kumar P.C.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
141	Remya Balakrishnan	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
142	Abhilash K.S.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
143	Dipoo Kumar	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
144	Anesh K. Thampi	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
145	Anwar K. Backer	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
146	Jitha P. Thomas	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
147	Adarsh V.R.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
148	Nisha S.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
149	Aswathy R. Krishnan	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
150	Sunnykuty Abraham	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
151	Sruthy V.J.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
152	Ratan Lal Lavavanshi	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
153	Jayachandra Das D.L.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
154	Ann Mathew	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
155	Satish Kuruvila Alexander	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
156	Abhinav Ruhela	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
157	Piyushkanti Kar	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
158	B. Radhika	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
159	Sarath R.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
160	Harisharan K.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
161	Saju S.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
162	Biswa Ranjan Mohanty	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
163	Shitij Arora	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
164	Sushil Barchha	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
165	Anil P. Madeckal	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
166	Arun Jose K.A.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
167	Jayachandran Nair K.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
168	Jinu Krishnan	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD

Sl. No	Name Shri/Smt/Kum	Post from which promoted	Post to which promoted
169	Naresh Kumar K.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
170	Santhosh Muralidharan	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
171	Unni Raveendran	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
172	Bimal B.S.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
173	Pavan Kumar Mangal	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
174	Paulose C.K.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
175	K.I. James	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
176	S. Sasi Dharan Nair	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
177	Vijayakumar K.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
178	N. Gopinathan Nair	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
179	Abhilash	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
180	N. Jayapalan	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
181	Baburajan N.P.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
182	Anthony C.O.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
183	Ajith Kumar U.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
184	Rajeevan K.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
185	Sushanth Kumar M.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
186	Noel philip Valiyakalayil	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
187	Rameshan K.K.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
188	R. Vijayakumar	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
189	Philip K. Mathew	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
190	George Y.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
191	Girach Imran Asatar	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
192	Gogulapati Supriya	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
193	E. Sreethar	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
194	Unnikrishnan J.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
195	Dominic George Joseph	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
196	Sundeep Kumar Epuri	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
197	Sandip Das	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
198	Premchand M.P.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
199	K.N. Ramarajan	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
200	Rohit Kumar	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
201	Ankur Jain	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
202	Prasanth P.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
203	Manoj Babu	Sr. Tech. Assistant-A	Scientist/Engineer-SC

Sl. No	Name Shri/Smt/Kum	Post from which promoted	Post to which promoted
204	Pramod P.P.	Sr. Tech. Assistant-A	Scientist/Engineer-SC
205	Babu Elimban	Sr. Tech. Assistant-A	Scientist/Engineer-SC
206	Priya P.	Sr. Tech. Assistant-A	Scientist/Engineer-SC
207	Santhosh Kumar G.	Sr. Tech. Assistant-A	Scientist/Engineer-SC
208	Prabhath Kumar K.T.	Sr. Tech. Assistant-A	Scientist/Engineer-SC
209	Sajan S.	Sr. Tech. Assistant-A	Scientist/Engineer-SC
210	Jisha V.C.	Sr. Tech. Assistant-A	Scientist/Engineer-SC
211	Unnikrishnan K.	Sr. Tech. Assistant-A	Scientist/Engineer-SC
212	Nijesh R.	Sr. Tech. Assistant-A	Scientist/Engineer-SC
213	Sreedharan A.	Sr. Tech. Assistant-A	Scientist/Engineer-SC
214	Rakesh Kumar N.	Sr. Tech. Assistant-A	Scientist/Engineer-SC
215	Nazar A. Baker	Sr. Tech. Assistant-A	Scientist/Engineer-SC
216	B. Senthil Kumar	Sr. Tech. Assistant-A	Scientist/Engineer-SC
217	Rajeevan P.	Sr. Tech. Assistant-A	Scientist/Engineer-SC
218	A.G. Santhosh Kumar	Sr. Tech. Assistant-A	Scientist/Engineer-SC
219	Shylaja L.	Sr. Tech. Assistant-A	Scientist/Engineer-SC
220	Nahushan Y.	Sr. Tech. Assistant-A	Scientist/Engineer-SC
221	Ramesh G.	Sr. Tech. Assistant-A	Scientist/Engineer-SC
222	Sreejith S.	Sr. Tech. Assistant-A	Scientist/Engineer-SC
223	Prakash Chandran P.R.	Sr. Tech. Assistant-A	Scientist/Engineer-SC
224	Premkrishnan M.K.	Sr. Tech. Assistant-A	Scientist/Engineer-SC
225	Ray D.T.	Sr. Tech. Assistant-A	Scientist/Engineer-SC

B. ANIL KUMAR, Deputy Secretary

No. 3/1(1)/2015-I —The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Purchase & Stores Officer as Sr. Purchase & Stores Officer to the posts mentioned against each in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name Shri/Smt./Kum.	Promoted Date
1	Prem Kumar M.R.	08.06.2012
2	Suresh Mohan N.	01.01.2013
3	Sreemathi T.	01.01.2013
4	Lalitha K.	01.01.2013
5	Dinesh N. Sutariya	09.05.2012

B. ANIL KUMAR, Deputy Secretary

No. 3/1(1)/2015-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SC as Scientists/Engineers-SD to the posts mentioned against each in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2012 and until further orders :—

Sl. No.	Name (Shri/Smt./Kum.)
1	Swathi Kiranmayee M.
2	Basil Eldhose

B. ANIL KUMAR, Deputy Secretary

No. 3/1(1)/2015-I —The President is pleased to appoint on promotion the Smt. P. Beena, Sr. Accounts officer as Head Accounts & IFA in Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 12.07.2012 and until further orders.

B. ANIL KUMAR, Deputy Secretary

No.3/1(1)/2015-I —The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Administrative Officers to the posts mentioned against each in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name (Shri/Smt./Kum.)	Post Name	Promoted Date
1	M. Prasannan	Sr. Administrative Officer	07.05.2012
2	Roy Samuel	Administrative Officer	21.05.2012

B. ANIL KUMAR, Deputy Secretary

No. 3/1(1)2015-I —The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name Shri/Smt./Kum.	Date of appointment
1.	Abhishek Dewangan	11.03.2013
2.	Sajitha T.S.	05.12.2012
3.	Chandana Pawan Kumar	16.10.2012
4.	Shashank Pachauri	18.05.2012
5.	Aparna Vishnu Nampoothiri	23.05.2012
6.	Burle Venkata Satya Shravan	28.09.2012
7.	Sai Krupa M.	27.09.2012
8.	Elbin George	27.09.2012
9.	Gusain Rajeshsingh Nandan	27.09.2012
10.	Nitish Kumar	27.09.2012
11.	Arjun Das	27.09.2012
12.	Adithya Mullapudi	28.09.2012
13.	Vaibhav Mathur	28.09.2012
14.	Garima Garsa	28.09.2012
15.	Ivan Joseph Roy	28.09.2012

Sl. No.	Name Shri/Smt./Kum.	Date of appointment
16.	Adimulam Venkata Surya Tej	27.09.2012
17.	Devendra Singh	28.09.2012
18.	Vaddavalli Dilipkumar	28.09.2012
19.	Nitin Rai	28.09.2012
20.	Atin Aggarwal	27.09.2012
21.	Aditya Varma S.	27.09.2012
22.	Amit Kumar Upadhyay	28.09.2012
23.	Vivek Kumar	28.09.2012
24.	Surbhi Baghotia	27.09.2012

B. ANIL KUMAR, Deputy Secretary

No. 3/1(2)/2015-I—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Senior Head, PGA in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name Shri/Smt./Kum.	Date of Superannuation
1.	C.H. Basavaraju	31.08.2012
2.	Saraswathy Amma A.G.	30.09.2012

B. ANIL KUMAR, Deputy Secretary

No. 3/1(2)/2015-I—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Scientists/Engineers in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name Shri/Smt./Kum.	Post	Date of relief
1.	J. Geetha	Scientist/Engineer-G	31.08.2012
2.	M.C. Viswambharan	Scientist/Engineer-SE	27.08.2012
3.	Mohanam M.K.	Scientist/Engineer-SD	30.08.2012
4.	Krishnankutty Nair N.	Scientist/Engineer-SD	31.07.2012

B. ANIL KUMAR, Deputy Secretary

No. 3/1(2)/2015-I—The President is pleased to accept the resignation from service of the following Scientists/Engineers in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name Shri/Smt./Kum.	Designation	Date of Resignation
1.	Kulkarni Aditya Dinkar Rao	Scientist/Engineer-SC	10.07.2012
2.	Govinda Krishnan R.	Scientist/Engineer-SC	31.07.2012

Sl. No.	Name Shri/Smt./Kum.	Designation	Date of Resignation
3.	Lalit Kumar	Scientist/Engineer-SD	01.08.2012
4.	Nikhil Madan	Scientist/Engineer-SC	31.08.2012

B. ANIL KUMAR, Deputy Secretary

No. 3/1(2)/2015-I —The President is pleased to accept the resignation from service of the following Scientists/Engineers-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name Shri/Smt/Kum	Date of Resignation
1.	Mani Bhushan Sharma	05.03.2012
2.	Sudhir Kumar B.	28.02.2012
3.	Deepak Kumar Jha	07.06.2013
4.	Shamil M.	24.05.2013
5.	Deepa S. Nair	08.02.2013
6.	Sanchit	20.07.2012

B. ANIL KUMAR, Deputy Secretary

No. 3/1(2)/2015-I —Consequent on attaining the age of superannuation Sri Joseph Varghese E.V., Administrative Officer, in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space has relinquished the charge with effect from the afternoon of 30.04.2012.

B. ANIL KUMAR, Deputy Secretary

No. 3/1(2)/2015-I—Consequent on attaining the age of superannuation Smt. Rajamma M.I., Purchase & Stores Officer, in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space has relinquished the charge with effect from the afternoon of 31.05.2012.

B. ANIL KUMAR, Deputy Secretary

No. 3/1(2)/2015-I—Consequent on attaining the age of superannuation the following Scientists/Engineers in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name Shri/Smt/Kum.	Post	Date of relief
1.	T.J. Thomas	Scientist/Engineer-G	31.05.2012
2.	K. Sreekantan	Scientist/Engineer-SF	30.09.2012
3.	Girijan M.	Scientist/Engineer-SE	30.06.2012
4.	K.C. Arunan	Scientist/Engineer-SE	30.09.2012
5.	Krishan Asari G,	Scientist/Engineer-SE	31.10.2012
6.	Mohandas C.V.	Scientist/Engineer-SE	31.10.2012
7.	B. Thankappan	Scientist/Engineer-SE	31.10.2012

Sl. No.	Name Shri/Smt/Kum.	Post	Date of relief
8.	K. Jayan	Scientist/Engineer-SE	28.02.2013
9.	R. Ramachandran	Scientist/Engineer-SD	27.02.2013
10.	S.P. Sambamoorthy	Scientist/Engineer-SD	31.03.2012
11.	Balan V.K.	Scientist/Engineer-SD	31.10.2012

B. ANIL KUMAR, Deputy Secretary

No. 3/1(2)2015-I—The President regrets to announce the death of Shri Tomy John, Scientist/Engineer-SF in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space on 09.07.2012.

B. ANIL KUMAR, Deputy Secretary

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 25 th March 2015

No. 181/2/2014—The Competent authority hereby appoints the following officers in the Election Commission of India as Under Secretary in the Pay Band PB-3, Rs. 15,600–39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from 4th March, 2015 :—

- i) Shri Ashim Narayan Das
- ii) Shri Josula Kameshwar Rao
- iii) Shri K. Dilip Kumar Varma
- iv) Shri Shiv Bahadur Joshi
- v) Shri Pramod Kumar Sharma
- vi) Shri Darsuothang (ST)
- vii) Shri Malay Mallick
- viii) Shri Avinash Kumar
- ix) Shri Arvind Anand (SC)
- x) Shri Rahul Sharma
- xi) Shri Ajoy Kumar
- xii) Shri Mohammed Umar
- xiii) Shri T. C. Kom (ST)
- xiv) Ms. Pushpa Niroj Lakra (ST)
- xv) Shri N. T. Bhutia (ST)
- xvi) Shri B. C. Patra

STANDHOPE YUHLUNG, Principal Secretary

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 17th December 2014

CORRIGENDUM

No.14013/06/2013 - AIS-III—In partial modification in the Notification No. 14013/06/2013-AIS-III dated 25th November, 2014 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Personnel & Training), the batch of Shri V. N. Suryawanshi, IAS may be read as 2006 in place of 2004.

NAVNEET MISRA, Under Secretary

New Delhi, the 27th February 2015

No. 13017/37/2013-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Government of Uttar Pradesh and the Ministry of Home Affairs, the Central Govt. hereby accords approval for the proposal for Inter cadre deputation of Shri Abhishek Singh, IAS (UP:11) from Uttar Pradesh cadre to AGMUT cadre (Delhi segment) on spouse grounds for a period of 3 years, in relaxation of guidelines.

S. S. SHUKLA, Under Secretary

The 4th March 2015

No. 13017/49/2014-AIS-I—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Government of Assam, Government of Meghalaya and Government of Haryana, the Central Govt. hereby transfers Shri Ajay Singh Tomer, IAS(AM:12) from Assam-Meghalaya cadre to Haryana cadre on the grounds of marriage to Ms. Sangeeta Tetarwal, IAS (HY:13).

S. S. SHUKLA, Under Secretary

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 5th March 2015

No. A. 12011/5/2012-Admn.II—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 5/3/2015-CS.I(U) dated 20.02.2015, the President is pleased to appoint Shri Jaydip Kumar Choudhury, Section Officer of the Central Secretariat Service (CSS) to Grade I (Under Secretary) of CSS purely on ad-hoc basis in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance with effect from 20.02.2015 for a period upto 31.05.2014 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier.

2. The aforesaid appointment is subject to the conditions mentioned in the Department of Personnel & Training Order referred to above.

ABHAY KUMAR SHARAN, Under Secretary

The 9th March 2015

No. A. 19011/03/2013-Admn.II—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 4/2/2015-CS-I(D) dated 27/02/2015, the President is pleased to appoint Shri Kripa Nath Mishra, Under Secretary of the Central Secretariat Services (CSS) to the Selection Grade (Deputy Secretary) in PB-3 (Rs. 15,600–39,100/-) with the grade pay of Rs. 7,600/- w.e.f. the forenoon of 2nd March, 2015 on ad-hoc basis, for a period upto 30.06.2015 or until further orders, whichever is earlier.

ABHAY KUMAR SHARAN, Under Secretary

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi-110 107, the 30th January 2015

No. A-19011/485/1994-E-I—On attaining the age of superannuation, Shri Nand Lal, a regular Assistant Development Officer Officiating as Senior Development Officer in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, is retired from Government service, with effect from the afternoon of 31st January, 2015.

L. K. SHARMA, Under Secretary

New Delhi, the 12th March 2015

No.1(7)/2014 - Expl.—The President is pleased to appoint Shri P. C. Srivastava, Joint Chief Controller of Explosives, as Chief Controller of Explosives in the Petroleum and Explosives Safety Organisation in the scale of pay of PB-4 of Rs. 37,400–67,000/- + Grade Pay Rs.10,000/- on regular basis, w.e.f. 02-03-2015 (F.N).

RAJESH KUMAR, Under Secretary

DEPARTMENT OF COMMERCE

New Delhi, the 20th March 2015

No. A-32014/4/2015-Cadre—The President is pleased to appoint Shri Gouri Shankar Jha, Section Officer of CSS Cadre, as Under Secretary on ad-hoc basis of CSS Cadre of Supply Division in PB-III of Rs. 15,600–39,100/- + Rs. 6,600/- (Grade Pay) with effect from 23rd February, 2015 in pursuance of DOP&T's O.Ms. No5/3/2015-CS.I(U) dated 20th February, 2015.

2. The ad-hoc promotion of Shri Gouri Shankar Jha is subject to the terms & conditions mentioned in aforesaid O.M. of Department of Personnel & Training.

AJAY KUMAR, Under Secretary

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 27th March 2015

No. P-45011/2/2013-CC—On completion of his deputation tenure, Shri Abhay Bakre, IRSEE-88, Executive Director in Petroleum Conservation Research Association (PCRA), is relieved of his duties in the PCRA w.e.f. the afternoon of 29th March, 2015.

2. Shri Bakre has been granted 60 days Earned Leave, in continuation of his relieving w.e.f. 30th March, 2015 to 28th May, 2015. His services are placed at the disposal of his parent cadre, i.e., Ministry of Railways (Railway Board), on completion of the aforesaid leave period.

J. K. SINGH, Under Secretary

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 12th February 2015

No. A-19011/05/2015-HR-II.—Consequent upon his promotion to the Selection Grade (Deputy Secretary) and subsequent transfer from Ministry of Defence, Shri Vikrant Sachdeva, Under Secretary is hereby taken on the strength of Department of Fertilizers as Deputy Secretary on ad-hoc basis in the Pay Band–3 (Rs. 15,600–39,100/-) with Grade Pay of Rs. 7,600/- w.e.f. 01.02.2015 (F/N) and upto 30.06.2015 or until further orders, whichever is earlier, in pursuance of the DoPT's Order No. 4/2/2015-CS-I (D) dated 23.01.2015.

2. Hindi version will follow.

SANJAY SRIVASTAVA, Under Secretary

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES

(DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-110003, the 18th March 2015

No. A-19011/244/2015-Admn.—In pursuance of Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training, Appointments Committee of the Cabinet's Order No. 33/4/2015-EO(SM-I)(10) dated 23rd February, 2015, the President is pleased to appoint Shri Madhukar Gupta, IAS (RJ : 1985) as Joint Secretary in Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises w.e.f. forenoon of 13th March, 2015 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

KALPANA NARAIN, Director

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110 108, the 25th March 2015

No. A.12025/73/2013-CHS.III— On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Reeta to the post of Assistant Professor in the specialty of Obstetrics & Gynaecology, posted at the VMMC & Safdarjung Hospital, New Delhi in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 1st February, 2014 and until further orders.

MURARI LAL SHARMA. Under Secretary

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi-1, the 26th March 2015

No. A-11013/1/2014-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Raghuvir Singh, Private Secretary as Additional Private Secretary in the Office of Hon'ble Minister of Rural Development, Panchayati Raj and Drinking Water & Sanitation in Co-terminus basis w.e.f. 19th January, 2015 in the Pay Band (PB-3) Rs. 15,600–39100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/-.

N. P. TOPPO, Under Secretary

No.A-11013/1/2014-Estt.(Vol-II).—The President is pleased to appoint Shri Bhuvnesh Kulshrestha, IRS (IT—1994), Additional Commissioner, of Income Tax, ITAT, Ahmedabad as Private Secretary to the Hon'ble Minister of State (PR) in Co-terminus basis for a period of five years w.e.f. 18th February, 2015 in the Pay Band (PB-4) Rs. 37,400–67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/-.

N. P. TOPPO, Under Secretary

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 23rd March 2015

No. ERB-I/2015/2/4—The President is pleased to appoint Shri Hemant Kumar, IRSME, General Manager, Western Railway as Member (Mechanical), Railway Board and ex-officio Secretary to Government of India w.e.f. afternoon of 13.01.2015.

P. C. GAJBHIYE, Secretary
(Railway Board)

No. ERB-I/2015/2/12—The President is pleased to appoint Shri S. S. Narayanan, HAG/IRSE, Adviser (Civil Engineering), Railway Board as Additional Member (Civil Engineering), Railway Board on promotion to grade ₹ 75,500–80,000/- with effect from forenoon of 19.03.2015.

P. C. GAJBHIYE, Secretary
(Railway Board)

No. ERB-I/2015/2/13—The President is pleased to appoint Shri Laj Kumar, HAG/IRSE, Adviser(Works), Railway Board as Additional Member (Works), Railway Board on promotion to grade ₹ 75,500–80,000/- with effect from forenoon of 19.03.2015.

P. C. GAJBHIYE, Secretary
(Railway Board)

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi-110001, the 9th March 2015

No. A-38012/7/2014-Estt.—Sh. S. S. Sharma, Sr. PPS, Ministry of Shipping, has retired from Government Service w.e.f. 28.02.2015 (A.N.) on attaining the age of Superannuation.

D. K. PURBEY, Under Secretary

The 18th March 2015

No. A-19011/03/2015-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Anant Yashwant Sawant as Additional Private Secretary to Hon'ble Minister of Road Transport & Highways and Shipping (Sh. Nitin Gadkari) in the Pay Band of PB-3 : Rs. 15,600–39,100/- + Rs. 6,600/- (Grade Pay) w.e.f. 01/01/2015 (FN) on co-terminus basis or until further orders.

D. K. PURBEY, Under Secretary

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 27th January 2015

No. A-12024/3/2014-E-I— In pursuance of Secretariat of the Appointment Committee of the Cabinet, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training's Order No.6/43/2014-EO(SM.I) dated 26.12.2014, the President is pleased to appoint Shri Anand Kumar, IAS (KL:84) as Managing Director, National Highways and Infrastructure Development Company Limited (NHIDCL) under the Ministry of Road Transport & Highways in the rank and pay of Additional Secretary in HAG Scale of Rs. 67,000–79,000/- w.e.f. 26.12.2014 (F.N.).

D. R. SHARMA, Under Secretary

The 30th January 2015

No. A-12025/1/2013-E-I— In pursuance of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel & Training's Order No.4/3/2014-CS-I (D) dated 22.12.2014, the President is pleased to appoint Shri Akhtarul Hanif (CSL No.5403), a regular Under Secretary (Grade-I) of CSS as Deputy Secretary (Selection Grade) in the Ministry of Road Transport & Highways in Pay Band-3, Rs.15,600–39,100/- + Rs. 7,600/- Grade Pay purely on ad-hoc basis with effect from 24.12.2014 (F.N.), initially for a period up to 30.06.2015 or until further orders, whichever is earlier.

2. The afore-said ad-hoc appointment is subject to the following conditions :—

- (v) The ad-hoc promotion is subject to the final outcome of the pending Writ Petition No.4097/2011-(Arun Gaur Vs Garima Singh & Ors), W.P. No.4616/2011 (V.S. Pandey & Ors Vs. Garima Singh & Ors), W.P. No.7619/2011- (UPSC Vs Garima Singh & Ors), W.P. No.2176/2012 (Union of India Vs. Garima Singh & Others) and other connected Writ Petitions Nos. W.P.(C) 2523/2012 (Union of India Vs. Anant Kishore Saran), W.P. (C) No.2524/2012-Union of India Vs. Shersha and Anr.), W.P. (C)No.2525/2012 (Union of India Vs. Syed Eram Rizvi and Anr.),WP. (C), W.P. (C)2526/2012 (Union of India Vs. Sandeep Kumar Gupta), WP.(C) No.2527/2012(Union of India Vs. Soumya Chattopadhyay and Anr) in the High Court of Delhi and also any other order by any competent court in any of the connected matters, apart from the above.
- (vi) The ad-hoc promotion to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS shall not bestow on him any claim for regular promotion to the grade.
- (vii) The service rendered on ad-hoc basis in the grade would not count for the purpose of seniority in the Selection Grade or for promotion to the next higher grade.
- (viii) The ad-hoc promotion shall not confer any right on him to continue in the grade indefinitely and may be terminated at any point of time without giving any reason thereof.

D. R. SHARMA, Under Secretary

The 3rd February 2015

No. A-12023/6/2014-E-I—In pursuance of Department of Personnel & Training (Office of Establishment Officer)'s O.M. No.1/6/2014-EO(MM-I) dated 23.12.2014, the President is pleased to appoint Shri Senthil Pandian C., IAS (UP:2002) as Private Secretary to Hon'ble Minister of State for Road Transport & Highways and Shipping (Shri Pon. Radhakrishnan) (in PB-3, Rs.15,600–39,100/- + Rs. 7,600 /- Grade Pay) at the level of Deputy Secretary on co-terminus basis with the Minister or for a period up to 26.04.2018 (i.e. maximum period of 7 years of stay outside the cadre in a single stint) with effect from 05.01.2015 (F.N.) or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs at the earliest.

D. R. SHARMA, Under Secretary

The 24th February 2015

No. A-12025/1/2013-E-I—In pursuance of Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training's Order No.5/11/2014-CS.I (U) dated 20.11.2014, the President is pleased to appoint Shri Dinkar Balaji Kumbhare, a regular Section Officer of CSS (CSL No. 8693) in the Ministry of Urban Development as Under Secretary (Grade-I of CSS) in the Ministry of Road Transport & Highways in Pay Band-3, Rs.15,600–39,100/- + Rs. 6,600/- Grade Pay on purely ad-hoc basis w.e.f. 11.12.2014 (F.N.), for a period up to 31.5.2015 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

2. His appointment as Under Secretary on ad-hoc basis is subject to the following terms and conditions :—

- i. The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS.
- ii. Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason there for.
- iii. The service rendered on ad-hoc basis in the Under Secretary Grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to next higher grade.
- iv. If he has not undergone mandatory Level 'D' Training as enjoined in Cadre Training Plan for the CSS, he will have to undergo the afore-said training as per nominations made by the Department of Personnel & Training.

D. R. SHARMA, Under Secretary

The 5th March 2015

No.A-12023/6/2014-E-I—The President is pleased to appoint Shri S. Sayeeram, Youth Assistant Grade-I of NSS Regional Centre, Chennai, Ministry of Youth Affairs and Sports as First PA to Hon'ble Minister of State for the Ministry of Road Transport & Highways and Shipping (Shri Pon. Radhakrishnan) on co-terminus/deputation basis in Pay Band-2, Rs. 9,300–34,800/- + Rs. 4,800/- Grade Pay w.e.f. 10.11.2014 (F.N.) and until further orders or till Minister desires his services or demits the office whichever is the earliest.

D. R. SHARMA, Under Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in